



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 15—मई 21, 2010 (वैशाख 25, 1932)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15—MAY 21, 2010 (VAISAKHA 25, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of
the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अप्रैल 2010

सं. डीपी/पर्स.-I/2010/1234/3/15/2003-- श्री विनीत अग्रवाल,
भा. पु. सेवा (महाराष्ट्र : 1994), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण
ब्यूरो की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति के परिणामस्वरूप,
प्रत्यावर्तन पर उनकी सेवाएं 02.04.2010 के अपराह्न से महाराष्ट्र सरकार
को सौंपी जा चुकी हैं।

एस. जे. एम. गिलानी
उप-निदेशक (प्रशा.)

सं. डीपी/पर्स.-I/2010/1235/53/3/2004-- कार्मिक और प्रशिक्षण
विभाग के दिनांक 13.02.2010 के आदेश सं. 221/10/2003-एवीडी-II
की शर्तों के अनुसार श्री के. मुरलीधर ने "सेवा से हटाना" पर

20.04.2010 (अपराह्न) से अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण
ब्यूरो के पद को त्याग दिया।

एस. जे. एम. गिलानी
उप-निदेशक (प्रशा.)

गृह मंत्रालय
(न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. 11/10/2006-प्रशा.(एफ.एस.)-- राष्ट्रपति जी, श्री भानू प्रताप सिंह
को न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय के अधीन केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान
प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II (प्राक्षेपिकी) के
पद पर दिनांक 02 मार्च, 2010 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड पी. बी.-3 व ग्रेड
वेतन रु. 5,400/- में नियुक्त करती हैं।

सी. एन. भट्टाचार्य
प्रभारी-निदेशक व मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अप्रैल 2010

सं. पी.तीन-2/2010-मंत्रा.--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप युप केन्द्र, के.रि.पु.बल, झड़ौदा कलां, नई दिल्ली के श्री ओम प्रकाश (ईरला संख्या-6743) ने प्रशासनिक अधिकारी का पदभार दिनांक 31.03.2010 (अपराह्न) को त्याग दिया।

रविन्द्र नाथ मिश्र
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. 1/27/2009-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मेघालय संवर्ग के अधिकारी श्री के. एल. तरीआंग, भा.प्र.से. (एनओएन-एससीएस: ए एम : 98) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के आधार पर 19.02.2010 (पूर्वाह्न) से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.03.2012 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, उप सचिव के उनके वर्तमान स्तर पर निदेशक, जनगणना कार्य, मेघालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री के. एल. तरीआंग का मुख्यालय मेघालय होगा।

एस. कन्नप्पन
अवर सचिव

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. प्रशासन का.आ.सं. 3--निवर्तन की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्री राम प्रकाश, व.ले.प.अ. दिनांक 31.05.2010 अपराह्न को भारत सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त होंगे।

उनकी जन्मतिथि 05.05.1950 और नियुक्ति की तिथि 29.05.1972 है।

हस्ता./- अपठनीय
व. उप-महालेखाकार (प्रशा.)

सं. प्रशासन का.आ.सं. 4--निवर्तन की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्री केशव चन्द्र शर्मा, व.ले.प.अ. दिनांक 31.05.2010 अपराह्न को भारत सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त होंगे।

उनकी जन्मतिथि 19.05.1950 और नियुक्ति की तिथि 16.08.1971 है।

हस्ता./- अपठनीय
व. उप-महालेखाकार (प्रशा.)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 29 अप्रैल 2010

सं. डब्ल्यू.एम.-I/क्यू-73(जी)/खण्ड IV/837-839--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिवीज़न/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीज़न में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वह प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गयी।

श्री पंकज कुमार देबनाथ

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ. आर. 22 (I) (क) (1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

हस्ता./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. 5/1/2010-सी.पी.आई.--मार्च, 2010 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 170 (एक सौ सत्तर) अंक के स्तर पर स्थिर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. पीडी/7(27)/2009/भर्ती-IV/टीओ (सी)/ईटीजी/अगस्त केसेस/3591--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित पदाधिकारियों को तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'सी' के पद पर पे बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- में, दिनांक 01 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:--

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री बमबम कुमार मिश्र	एसए/सी
2.	श्री मुनौवर अली	एसए/डी

1	2	3
3.	श्री पंकज कुमार शर्मा	एसएस/सी
4.	श्री अवध किशोर सिंह	एसएस/सी
शैलजा प्रकासम उप स्थापना अधिकारी		

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 6(2525)/2010-प्रशा./3733--परमाणु ऊर्जा विभाग के अपर सचिव एतद्वारा भारी पानी संयंत्र (कोटा) के सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-), श्री जी. वेंकटेशन को पदोन्नत करके दिनांक 31 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में अनुभाग अधिकारी (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव

सं. 6(2526)/2010-प्रशा./3734--परमाणु ऊर्जा विभाग के अपर सचिव एतद्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के सहायक (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-) श्री राजू पप्पू को पदोन्नत करके दिनांक 01 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में अनुभाग अधिकारी (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव

दिनांक 22 अप्रैल 2010

शुद्धि पत्र

सं. 6(2523)/2010-प्रशा./3793--निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, मुंबई के वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री पी. वी. धोंगडी, जिनकी दिनांक 25 फरवरी 2010 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में उप लेखा नियंत्रक के रूप में पदोन्नति इस विभाग की दिनांक 08.03.2010 की समसंख्यक/2376 अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई थी, के पदनाम को संशोधित कर विशेष कार्य अधिकारी (बजट) के रूप में पढ़ा जाए।

वी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 26 अप्रैल 2010

सं. 20/3(6)/2009-सीसीएस/08--राष्ट्रपति, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के वरिष्ठ निजी सचिव, (वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री पी. सी. कृष्णकुमार को दिनांक 05.04.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक, उसी केन्द्र में प्रमुख निजी सचिव (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चाक्को
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 26/3(5)/2009-सीसीएस/09--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली के कर्नल अजय मोहे, 1 जीआर की दिनांक 28.01.2010 से 28.02.2010 तक इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई में निदेशक (सुरक्षा एवं समन्वयन) (वेतन बैंड-4 रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-) के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि विस्तारित करते हैं।

सी. डी. चाक्को
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 26/2(3)/2006-सीसीएस/10--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली के कर्नल अरूण कुमार केशव शिंदे, एएडी की दिनांक 22.10.2009 से अगले एक साल तक इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई में मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि विस्तारित करते हैं।

सी. डी. चाक्को
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 21/3(2)/2009-सीसीएस/11--राष्ट्रपति, इस विभाग के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद के वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री एन. श्री कुमार को दिनांक 04.03.2010 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश होने तक, भारी पानी संयंत्र (मनुगुरू) में उप लेखा नियंत्रक (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चाक्को
विशेष कार्य अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 27 अप्रैल 2010

संदर्भ : क्रभनि/07020/भर्ती/1789--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री जी. अप्पा राव, सहायक भंडार अधिकारी (वेतन बैंड-2,

रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-), हैदराबाद क्षेत्रीय भंडार एकक, हैदराबाद, को दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक, भंडार एकक, क्रभनि, मनुगुरु, में भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में नियुक्त करते हैं।

कंथरीन राज
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 26 अप्रैल 2010

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-3600/4043--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री एम. वेंकटरायाणा, वैज्ञानिक अधिकारी 'डी' (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) ने दिनांक 31.01.2010 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सीएच. जगदीश
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-4352/4044--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री जे. बी. मुरलीधर राव, वैज्ञानिक अधिकारी 'एच' (वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- तथा ग्रेड वेतन रु. 10,000/-) ने दिनांक 31.03.2010 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सीएच. जगदीश
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/पेंशन/का.कू.-2994/4045--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री एन. रामाकृष्णय्या, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) ने दिनांक 31.03.2010 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सीएच. जगदीश
सहा. कार्मिक अधिकारी

हैदराबाद-500062, दिनांक 28 अप्रैल 2010

सं. नाईस/प्रशा./काप्रभ.-1/03/58/268--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्री के. बी. राम शर्मा, आशुलिपिक ग्रेड-I को रु. 4,200/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में अस्थायी हैसियत में दिनांक 17.03.2010 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक स्थानापन्न निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 29 अप्रैल 2010

सं. नाईस/काप्रभ.-1/03/01/404--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के श्री अभिनव चतुर्वेदी, तकनीकी अधिकारी/डी को रु. 15,600--39,100/- के पे बैंड में रु. 6,600/- के ग्रेड पे सहित अस्थायी हैसियत में दिनांक 15.04.2010 अथवा भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, तकनीकी अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. आईजीसी/पीएफ/10093/2010-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में श्री डी. अशोकन को अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक तकनीकी अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के पद पर प्रारंभिक वेतन रु. 21,000/- पर वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड पर दिनांक 17.03.2010 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

वी. दयालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 22 अप्रैल 2010

सं. आईजीसी/पीएफ/10098/2010-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में श्रीमती सी. पराशक्ति को अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के पद पर प्रारंभिक वेतन रु. 25,350/- पर वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड पर दिनांक 09.04.2010 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

वी. दयालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 अप्रैल 2010

सं. ए-32013/3/2010-स्थापना-2--राष्ट्रपति महोदय, नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय के निम्नलिखित उप निदेशक (प्रचालन) अधिकारियों को उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीख से निदेशक (प्रचालन) के पद पर (तदर्थ आधार पर) पीबी-4 रु. 37,400--67,000/- + रु. 8,700/- ग्रेड पे के वेतनमान में एक वर्ष के लिए या जब तक यह पद नियमित रूप से भरा जाए, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया जाता है :-

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| (1) श्री दिनेश चन्द शर्मा | 27.04.2010 (पूर्वाह्न) |
| (2) श्री मनोज तुलसीराम बोकाडे | 27.04.2010 (पूर्वाह्न) |

के. उन्नीकृष्ण
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते नागर विमानन महानिदेशक

दिनांक 3 मई 2010

सं. ए-19012/2/2010-स्था-II--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 5/5/2010-रा.भा. (सेवा) दिनांक 11.03.2010 के अनुसार में राष्ट्रपति जी, डॉ. मधु शुक्ला, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, त्रिभुक्तिका तथा प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को नागर विमानन महानिदेशालय 15,600--39,100/- रु. (पे बैंड-3) तथा ग्रेड पे 5,400/- रु. के तनमान में तारीख 01 अप्रैल, 2010, पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. उन्नीकृष्णन
उप निदेशक, प्रशासन

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेन टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स डॉ. एन. के. बंसल हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 27 अप्रैल 2010

सं. ए-19012/1/2010-स्था-II--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 5/5/2010-रा.भा. (सेवा) दिनांक 11.03.2010 के अनुसार में राष्ट्रपति जी, श्री सल्लू राम, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को नागर विमानन महानिदेशालय 15,600--39,100/- रु. (पे बैंड-3) तथा ग्रेड पे 5,400/- रु. के तनमान में तारीख 25 मार्च, 2010, अपराह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. उन्नीकृष्णन
उप निदेशक, प्रशासन

सं. आर.ओ.सी./560/19190/3366-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डॉ. एन. के. बंसल हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी मामले मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स उदयपुर वास्ते प्रोसेसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 23 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./560/23442/3343-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स उदयपुर वास्ते प्रोसेसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स मारवाड ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 27 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./560/15770/3370-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मारवाड ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स नेन टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 23 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./560/28831/3347-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 4 मई 2010

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560(3)/406--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियाँ

के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1	2
1. 11755	मैसर्स पाटनी पोलिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2. 01762	मैसर्स एस डी कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3. 01763	मैसर्स गामा लेदर एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
4. 01767	मैसर्स सिक्यूरिटी सेविंग्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5. 01787	मैसर्स इण्डो एबोड कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
6. 01862	मैसर्स पूर्ण एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
7. 11467	मैसर्स एस बी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
8. 11467	मैसर्स राजस्थान ऑयल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
9. 01873	मैसर्स श्री कमल नयन राइस एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
10. 01882	मैसर्स इसीएस पेपर्स लिमिटेड
11. 11844	मैसर्स उर्मिला गिफ्ट एण्ड फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
12. 11884	मैसर्स रोहित कन्डकटर्स प्राईवेट लिमिटेड
13. 11887	मैसर्स एसजेटीके मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
14. 11964	मैसर्स वी के कॉन्फेक्शनर्स प्राईवेट लिमिटेड
15. 11687	मैसर्स मनीश सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
16. 11989	मैसर्स रचना टावर्स प्राईवेट लिमिटेड
17. 11879	मैसर्स क्रितिका ट्रांसफॉर्मर्स प्राईवेट लिमिटेड
18. 11797	मैसर्स करन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
19. 11586	मैसर्स कुशलस इनकॉर्प् प्राईवेट लिमिटेड
20. 01757	मैसर्स स्टेम्को इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
21. 01785	मैसर्स एस इलेमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22. 01833	मैसर्स राठी गम इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
23. 01844	मैसर्स जोधपुर केबल्स एण्ड कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
24. 01798	मैसर्स जयपुर वायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
25. 01793	मैसर्स मेटल एण्ड एलॉयज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
26. 01773	मैसर्स जयपुर केबल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
27. 01771	मैसर्स कृष्णा पल्सेज एण्ड ऑयल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
28. 11553	मैसर्स एबीएस इम्पो एक्पो प्राईवेट लिमिटेड	
29. 11563	मैसर्स छाजेद ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	
30. 11780	मैसर्स दस्तगिर ऑक्सीजन्स प्राईवेट लिमिटेड	
31. 11415	मैसर्स एन्डस ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड	
32. 11385	मैसर्स हैनीवाला मिनरल प्राईवेट लिमिटेड	
33. 11590	मैसर्स डॉ. तलवारस मेटरियल एण्ड कार्डिक रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	
34. 11640	मैसर्स डी निक्स मिनरल वाटर्स प्राईवेट लिमिटेड	
35. 11669	मैसर्स गंवाल होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	
36. 11852	मैसर्स अमर जीवन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	
37. 11643	मैसर्स श्रेयस टालक एण्ड क्लेज प्राईवेट लिमिटेड	
38. 07517	मैसर्स विकास निर्माण लिमिटेड	
39. 08631	मैसर्स ए के सी एल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	
40. 08554	मैसर्स कल्परचित कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड	
41. 08510	मैसर्स हीरो टेक्नोलॉजी लिमिटेड	
42. 08366	मैसर्स एस बी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	
43. 09245	मैसर्स बीजेएम इन्टरनेशनल लिमिटेड	
44. 08348	मैसर्स रिषभ हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स लिमिटेड	
45. 11419	मैसर्स सनराइज कूल एयर प्राईवेट लिमिटेड	
46. 11729	मैसर्स रांका लैण्ड डवलपमेन्ट फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	
47. 11768	मैसर्स सुहल्का इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
48. 11802	मैसर्स जोडिना स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	
49. 11857	मैसर्स श्री बिंदायका फाईनेन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	
50. 11966	मैसर्स वरटेक्स मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	
51. 11991	मैसर्स युनी प्लस मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	
52. 11118	मैसर्स जयपुर ऑटो फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	
53. 05502	मैसर्स रेजिना ऑयल प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड	
54. 11274	मैसर्स श्री भवानी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	
55. 01769	मैसर्स होटल अजयमेरू प्राईवेट लिमिटेड	
56. 11524	मैसर्स एक्सीलेन्ट इरिगेशन प्राईवेट लिमिटेड	
57. 11499	मैसर्स अरावली कम्पिल प्राईवेट लिमिटेड	
58. 11761	मैसर्स अम्बिका क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड	

1	2	3	1	2	3
59.	11838	मैसर्स जे आर जी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	91.	11829	मैसर्स कुमार फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
60.	11858	मैसर्स बनारसी लिजिंग एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	92.	11684	मैसर्स लोक नाथ इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	11382	मैसर्स गायत्री परफ्यूमरी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	93.	01937	मैसर्स फोन्सी स्टोन्स इण्डिया लिमिटेड
62.	11592	मैसर्स एन एन स्टील रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	94.	01890	मैसर्स हिन्दूस्तान सिन्थेटिक्स लिमिटेड
63.	09618	मैसर्स कुन्दन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	95.	08051	मैसर्स टी पी डी फाईनेन्स लिमिटेड
64.	11661	मैसर्स श्री रिद्धि सिद्धि ग्रेनीमार्मो प्राईवेट लिमिटेड	96.	07982	मैसर्स गेलेक्सी क्लब कार्ड लिमिटेड
65.	11143	मैसर्स कालिन्दी ग्रेनाइट्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	97.	09312	मैसर्स डबी लिजिंग एण्ड फाईनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड
66.	11632	मैसर्स राधा गोविन्द वलइन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	98.	08833	मैसर्स फरस्ट राईस फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड
67.	11491	मैसर्स जगदम्बा इरिगेशन प्राईवेट लिमिटेड	99.	08513	मैसर्स आदित्या फिनलीज लिमिटेड
68.	11528	मैसर्स प्राज इन्फिन प्राईवेट लिमिटेड	100.	08589	मैसर्स नाथ ईस्ट सिटी लिमिटेड
69.	05646	मैसर्स कोटा फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	101.	08641	मैसर्स लोहिया स्टील्स एण्ड फोर्ज लिमिटेड
70.	11253	मैसर्स महेश माल्ट प्राईवेट लिमिटेड	102.	11789	मैसर्स सर्वोदया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
71.	11120	मैसर्स सरेनिक ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	103.	11550	मैसर्स सत्यविजय लिजिंग एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
72.	11128	मैसर्स ट्रान्समिशन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	104.	08905	मैसर्स गणपति कोटस्पिन लिमिटेड
73.	11259	मैसर्स सहरिया मार्बल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	105.	09431	मैसर्स जैनमोनूमेन्टल रिक्रिएशन रिसोर्ट्स लिमिटेड
74.	11281	मैसर्स यशोदा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	106.	05505	मैसर्स राधा कृष्णा स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	11067	मैसर्स रावत फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड	107.	02000	मैसर्स सीता मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	11671	मैसर्स समाचार जगत प्राईवेट लिमिटेड	108.	01992	मैसर्स उदयपुर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	11430	मैसर्स श्याम अर्थ मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड	109.	01976	मैसर्स जग्गी एलोइज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
78.	08326	मैसर्स मध्य प्रदेश वित्त अवाम विनियोग लिमिटेड	110.	01912	मैसर्स प्लेक्सस प्राईवेट लिमिटेड
79.	11288	मैसर्स बिलासपुर फाईनेन्स एण्ड लिजिंग लिमिटेड	111.	01903	मैसर्स रेक्स जिप फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	09981	मैसर्स विज्ञान फिनवेस्ट लिमिटेड	112.	01895	मैसर्स इण्डियन लुक टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	09754	मैसर्स क्राईस्टल फिनवेस्ट लिमिटेड	113.	01899	मैसर्स जगेटिया पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	09647	मैसर्स सोगानी इमेजेस इण्डिया लिमिटेड	114.	01913	मैसर्स सनप्लोवर क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड
83.	09626	मैसर्स सीआरसी पैलेस होटल्स लिमिटेड	115.	01922	मैसर्स आलुदा सरमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	09614	मैसर्स निम्बारका होलिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड	116.	01926	मैसर्स एच के जाखड प्राईवेट लिमिटेड
85.	11146	मैसर्स एलोरा सीमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	117.	01936	मैसर्स नेपचयून लेबोरटरीज प्राईवेट लिमिटेड
86.	11073	मैसर्स अखिल सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	118.	01946	मैसर्स बाडमेर वूलटेक्स मिल्स लिमिटेड
87.	01904	मैसर्स इलेक्ट्रीक कन्ट्रोल्स एण्ड स्विच बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड	119.	01942	मैसर्स एडवान्स पेपर मिल्स लिमिटेड
88.	11459	मैसर्स फूड लैण्ड जयपुर प्राईवेट लिमिटेड	120.	20760	मैसर्स एसोसिएटेड नेचुरल सण्डस्टोन प्राईवेट लिमिटेड
89.	11424	मैसर्स बथला इनफिन प्राईवेट लिमिटेड	121.	20761	मैसर्स स्टोन मार्वलिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
90.	11932	मैसर्स एक्टिव मार्बल एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
122.	20762	मैसर्स राजस्थान नेचुरल सण्डस्टोन प्राईवेट लिमिटेड	155.	10571	मैसर्स सार्थक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	21533	मैसर्स श्रीनाथ एग्रोकैम प्राईवेट लिमिटेड	156.	10394	मैसर्स पी डी के सिक्कोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
124.	20557	मैसर्स राजस्थान बिल्डएस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	157.	03283	मैसर्स पाठक स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	20687	मैसर्स शिखा कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	158.	01845	मैसर्स निधि मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
126.	21736	मैसर्स रूद्रावतार रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	159.	09653	मैसर्स ओसवाल मार्मो प्राईवेट लिमिटेड
127.	21670	मैसर्स चन्दा कॉमोडिटिज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	160.	17256	मैसर्स हैरिटेजसिटी ट्रेडलिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
128.	21692	मैसर्स गम्मा मिनरल एण्ड क्ले कॉम्बाइन	161.	00814	मैसर्स करोली स्टोन मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
129.	21704	मैसर्स स्वबिकास मेन पावर प्राईवेट लिमिटेड	162.	13834	मैसर्स इन्दोरा कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	21713	मैसर्स जयपुर मेरिन ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड	163.	06178	मैसर्स शान्ता बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	21719	मैसर्स व्यास ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड	164.	10028	मैसर्स सुप्रिन्ट ट्रेडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	01274	मैसर्स अग्रवाल फाईनेसियल एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	165.	15576	मैसर्स गोल्डस्टार टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	11244	मैसर्स श्री समर्थ केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	166.	21316	मैसर्स बोर्ड जेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	11081	मैसर्स सुगन सिक्कोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	एस. पी. कुमार कम्पनी रजिस्ट्रार राजस्थान		
135.	05878	मैसर्स श्री गणपति वूड क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			
136.	21526	मैसर्स पूजा बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में पटना, दिनांक 23 अप्रैल 2010		
137.	20129	मैसर्स क्षत्रिय एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड			
138.	20986	मैसर्स श्यामपुरिया बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड	सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)/Suo-Moto/342--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-		
139.	20990	मैसर्स श्रीमंगलम इलेक्ट्रोडिवाइसेज प्राईवेट लिमिटेड			
140.	20890	मैसर्स रिद्धि-सिद्धि पोलिपेक्स प्राईवेट लिमिटेड	क्र. कम्पनी कम्पनी का नाम सं. सं.		
141.	13840	मैसर्स सुलजम सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड			
142.	21245	मैसर्स हरितवाल बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड	1	2	3
143.	06161	मैसर्स बन्दना कोल ब्रिक्क्यूटेस प्राईवेट लिमिटेड	1.	00118	मैसर्स सहाबाद कॉटेज इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
144.	21046	मैसर्स रूपल बिल्ड होम प्राईवेट लिमिटेड	2.	00264	मैसर्स टार पी सिन्हा सिमेंट लिमिटेड
145.	13868	मैसर्स सोनाली क्रियेशन प्राईवेट लिमिटेड	3.	00407	मैसर्स चन्द्रगुप्त प्रकासन लिमिटेड
146.	07443	मैसर्स मधु रि-रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	4.	00474	मैसर्स सहाना कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
147.	10448	मैसर्स जेवल मार्ट लिमिटेड	5.	00514	मैसर्स बिहार आयरन डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड
148.	22455	मैसर्स तिजाराया बिल्डइस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	6.	00577	मैसर्स उत्तम कृषि उद्योग लिमिटेड
149.	22518	मैसर्स जयचन्दा कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड	7.	00709	मैसर्स संजय प्रकासन लिमिटेड
150.	23362	मैसर्स पाषाण रियलिटी प्राईवेट लिमिटेड	8.	00746	मैसर्स दोविया कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड
151.	25412	मैसर्स एसआई एनर्जी लिमिटेड			
152.	20467	मैसर्स गजराज एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड			
153.	03508	मैसर्स मोडर्न स्वदेशी टायर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड			
154.	10813	मैसर्स सनसिटी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
9.	00757	मैसर्स इ एम एस यू ब्रेवरेजेज एण्ड प्रोसेस्ड फूड्स लिमिटेड	39.	08319	मैसर्स अलमोनाक इस्टेट्स इण्डिया लिमिटेड
10.	00759	मैसर्स श्री जवाहर कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड	40.	08343	मैसर्स विपल्लब फिसिंग कम्पनी लिमिटेड
11.	00763	मैसर्स बेकारो डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड	41.	08346	मैसर्स सिलबी एग्रो कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
12.	00764	मैसर्स एटलस आयरन एण्ड एलॉयज लिमिटेड	42.	08351	मैसर्स अयेनीर मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड
13.	00780	मैसर्स जमशेदपुर एसबेस्टस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	43.	08371	मैसर्स क्षेत्रीय टूरिज्म डेवलपमेंट लिमिटेड
14.	00799	मैसर्स द स्वर्णकार एल्युमिनीयम निर्माणसाला लिमिटेड	44.	08450	मैसर्स पेटसन्स इन्फ्राकॉन लिमिटेड
15.	00814	मैसर्स सिंहभूम फ्लोर मिल्स लिमिटेड	45.	08470	मैसर्स पाटलिपुत्रा इन्टरनेशनल मेडिकल सेन्टर लिमिटेड
16.	00822	मैसर्स आजिमाबाद पब्लिकेशन लिमिटेड	46.	08515	मैसर्स टोपल लिंक्स लिमिटेड
17.	00861	मैसर्स प्रोमिनेन्ट कॉन्टैक्टर्स एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड	47.	08600	मैसर्स सन पॉलीपाइप्स लिमिटेड
18.	00888	मैसर्स तनेजा मिनरल्स लिमिटेड	48.	08660	मैसर्स क्रीपटन इन्फोटेक लिमिटेड
19.	00937	मैसर्स तिरहुत फ्रूट्स एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	49.	08682	मैसर्स धुलिया कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोपर्टीज लिमिटेड
20.	00949	मैसर्स रितु होटल्स लिमिटेड	50.	08822	मैसर्स पाटलिपुत्रा होटल्स इण्डिया लिमिटेड
21.	01141	मैसर्स ब्रियु वेल इण्डिया लिमिटेड	51.	08877	मैसर्स सर्वोत्तम कोल एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
22.	01157	मैसर्स बेसिकेम इण्डिया लिमिटेड	52.	08910	मैसर्स गंगोत्री कानकास्ट लिमिटेड
23.	01188	मैसर्स नालन्दा ब्रेवरीज लिमिटेड	53.	08917	मैसर्स मोहम्मदपुर कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड
24.	01190	मैसर्स बिहार फार्मलडिहाइड लिमिटेड	54.	08933	मैसर्स हृदया बसंत सन्स माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
25.	01308	मैसर्स निरंजन टेक्सटाईल लिमिटेड	55.	09359	मैसर्स बिहार कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एण्ड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड
26.	01309	मैसर्स नालन्दा कोल्ड स्टोरेज एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	56.	09403	मैसर्स हनेमन आरोग्य लिमिटेड
27.	01325	मैसर्स आटो लिंक्स लिमिटेड	57.	09413	मैसर्स जी हेल्थकेयर लिमिटेड
28.	01338	मैसर्स पाटलिपुत्रा प्रेस एण्ड पब्लिकेशन लिमिटेड	58.	09437	मैसर्स जय माँ दुर्गा कन्सट्रक्शन लिमिटेड
29.	01271	मैसर्स बोकारो कोलतार लिमिटेड	59.	09439	मैसर्स दिलीप एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड
30.	01272	मैसर्स मुमताज केमिकल्स लिमिटेड	60.	09474	मैसर्स स्टारजीनेट हुमन रिसोर्सिज कन्सलटेन्सी लिमिटेड
31.	01352	मैसर्स कालबेन इण्डिया लिमिटेड	61.	09720	मैसर्स शिवम सब्सटेन्स इण्डिया लिमिटेड
32.	01457	मैसर्स रांची टेक्सटाईल प्रोफेसर्स लिमिटेड	62.	09735	मैसर्स तिवारी एण्ड चौबे इंटरप्राइजेज लिमिटेड
33.	01662	मैसर्स सडसन्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	63.	09903	मैसर्स प्रोमिनेन्ट कार्ड्स लिमिटेड
34.	08092	मैसर्स मीक हाउसिंग लिमिटेड	64.	09944	मैसर्स साई फेरस लिमिटेड
35.	08034	मैसर्स अंजना एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	65.	10008	मैसर्स अनुसील श्याम यशस्वीनी एक्जीवीटर्स लिमिटेड
36.	08254	मैसर्स सुविधा एग्रो मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक लिमिटेड	66.	10075	मैसर्स आयुर्वेदश्री हर्बल्स लिमिटेड
37.	08314	मैसर्स ब्लू डायमण्ड कुरियर लिमिटेड	67.	10081	मैसर्स हंसवाहीनी प्रोपर्टीज एण्ड कन्सलटेन्सी लिमिटेड
38.	08316	मैसर्स रामगंगा वेली केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र लिमिटेड	68.	10133	मैसर्स डिवाइन लाईफ कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड
			69.	10245	मैसर्स लॉफटी मैनेजमेंट लिमिटेड

1	2	3
70.	10251	मैसर्स एम्बोशन मार्केटिंग इण्डिया लिमिटेड
71.	10257	मैसर्स जी कॉनसेप्ट मार्केटिंग लिमिटेड
72.	10389	मैसर्स बाम्बे सेफ एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड
73.	10570	मैसर्स बनानचल प्रिंस मार्केटिंग लिमिटेड
74.	10597	मैसर्स अमन इन्फो लिमिटेड
75.	10614	मैसर्स नाईस अल्ट्रीजम डिस्ट्रीब्यूशन इण्डिया लिमिटेड
76.	10758	मैसर्स गुलमोहर पॉलीप्लास्ट लिमिटेड
77.	10771	मैसर्स पारस कॉनसेप्ट इण्डिया लिमिटेड
78.	10794	मैसर्स होमलैण्ड इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज लिमिटेड
79.	10921	मैसर्स संचार इन्फोवेज लिमिटेड
80.	11037	मैसर्स रैडियन्ट स्वास्थ्य इण्डिया लिमिटेड
81.	12082	मैसर्स झारखण्ड इलेक्ट्रान्स इण्डिया लिमिटेड
82.	11174	मैसर्स लीजन मार्केटिंग इण्डिया लिमिटेड
83.	12150	मैसर्स ब्लू मोल्टाना रिसोर्ट लिमिटेड

के. एस. प्रधान
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शाट कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./13579/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शाट कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वधानी डेंटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./50721/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर

मैसर्स वधानी डेंटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ऋषि फायनांस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./26477/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऋषि फायनांस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजान
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शुभ लक्ष्मी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./34300/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शुभ लक्ष्मी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजान
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दीपांजली ऑरगेनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./30346/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दीपांजली ऑरगेनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजान
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डिकिन्स मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./27008/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिकिन्स मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्वामीनारायण टेक्सचराईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./23864/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वामीनारायण टेक्सचराईजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कोल केयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./55427/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोल केयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सुसाभ फायबर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./23503/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुसाभ फायबर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स डिकिन्स साइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./19369/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिकिन्स साइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सिद्धि प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./37118/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिद्धि प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स लेसिक्स इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./38219/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लेसिक्स इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स युज कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./17158/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स युज कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेफ शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./43602/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेफ शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फास्ट ट्रेक सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./30750/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फास्ट ट्रेक सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लांजीगढ़ शेड्यूल्ड एरिया डेवेलोपमेंट फाउंडेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक-753001, दिनांक 26 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./560(3)/536--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लांजीगढ़ शेड्यूल्ड एरिया डेवेलोपमेंट फाउंडेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मुथु पालॉय स्टील मिल्स लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 26 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00266--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मुथु पालॉय स्टील मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राट्दा वेलनेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 26 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00277--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राट्दा वेलनेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चांपसाफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00108--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चांपसाफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st April 2010

No. F. 6/2010-SCA(I)—Shri S. Krishnan and Smt. Vijay Aggarwal, Assistant Registrars and Shri Ashok Bhatia, Branch Officer have retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of March 31, 2010 on their attaining the age of superannuation.

ASHOK KUMAR
Registrar

The 28th April 2010

No. 44/2010/SCA (Genl.)—In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended), Hon'ble the Chief Justice of India has directed that the Supreme Court will be closed for the annual Summer Vacation from Monday, May 17, 2010 to Sunday July 4, 2010 (both days inclusive) and will reopen on Monday, July 5, 2010.

Under Rule 6 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended), Hon'ble the Chief Justice of India has nominated the following Division Benches for hearing of urgent miscellaneous matters and regular hearing matters during the Summer Vacation for the period from May 17 to June 3, 2010, June 4 to June 19, 2010 and June 20 to July 4, 2010:—

Ist PART OF VACATION (17.05.2010 to 03.06.2010)

Division Period Bench	Name of the Hon'ble Judges Constituting Division Bench	
1. 17.05.10 to 03.06.10	Hon'ble Justice Mr. G.S. Singhvi and Hon'ble Justice Mr. C. K. Prasad	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and Regular hearing matters from Tuesdays to Fridays
2. 17.05.10 to 03.06.10	Hon'ble Justice Dr. B. S. Chauhan & Hon'ble Justice Mr. Swatanter Kumar	For Hearing regular hearing matters from Mondays to Fridays

IInd PART OF VACATION (04.06.2010 to 19.06.2010)

Division Period Bench	Name of the Hon'ble Judges Constituting Division Bench	
1. 04.06.10 to 19.06.10	Hon'ble Justice Mr. Deepak Verma and Hon'ble Justice Mr. K. S. Radhakrishnan	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and Regular hearing matters from Tuesdays to Fridays.

IIIrd PART OF VACATION (20.06.2010 to 04.07.2010)

Division Period Bench	Name of the Hon'ble Judges Constituting Division Bench	
1. 20.06.10 to 04.07.10	Hon'ble Justice Mr. R. M. Lodha and Hon'ble Justice Mr. A. K. Patnaik	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and Regular hearing matters from Tuesdays to Fridays.

During Summer Vacation the Registry will remain open from 10.00 a.m. to 4.30 p.m. instead of 10.00 a.m. to 5.00 p.m. for all officers and staff members of the Registry except Class IV and other concerned staff in whose case the timings will be from 9.30 a.m. to 5.00 p.m. instead of 9.30 a.m. to 5.30 p.m. on all days except Saturdays (other than 03.07.2010), Sundays and holidays, when it shall remain closed.

ASHOK KUMAR
Registrar (Admn. Genl.)

New Delhi, the 13th April 2010

No. F. 20/2010-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote the following officers of this Registry to the posts and with effect from the date mentioned against each until further orders:—

S. No.	Name & Designation	Post to which promoted & Date
1	2	3
1.	Smt. Lata Dhingra, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Officiating Assistant Registrar (Non-Shorthand) w.e.f. 23.03.2010 (A/N)
2.	Smt. Veera Verma, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Officiating Assistant Registrar (Non-Shorthand) w.e.f. 23.03.2010 (A/N)
3.	Smt. Madhu Saxena, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Officiating Assistant Registrar (Non-Shorthand) w.e.f. 23.03.2010 (A/N)
4.	Shri Vijay Dhawan, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Assistant Registrar (Non-Shorthand) on ad hoc basis, w.e.f. 23.03.2010 (A/N)
5.	Shri B.L.N. Achary, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Assistant Registrar (Non-Shorthand) on ad hoc basis, w.e.f. 23.03.2010 (A/N)
6.	Smt. Pushap Lata Bhardwaj, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Officiating Assistant Registrar (Non-Shorthand) on ad hoc basis, w.e.f. 05.04.2010 (A/N)

1	2	3
7.	Smt. N. Annapurna, Court Master (Non-Shorthand)	Officiating Assistant Registrar-cum-Private Secretary w.e.f. 23.03.2010 (A/N)
8.	Smt. Alka Dudeja, Court Master (Shorthand)	Officiating Assistant Registrar-cum-Private Secretary w.e.f. 23.03.2010 (A/N)
9.	Smt. Ajay Kumar Jain, Court Master (Shorthand)	Officiating Assistant Registrar-cum-Private Secretary w.e.f. 23.03.2010 (A/N)
10.	Shri Rajan Kumar Dhawan, Court Master (Shorthand)	Assistant Registrar-cum-Private Secretary on ad hoc basis against a purely short term temporary vacancy w.e.f. 23.03.2010 (A/N)
11.	Shri Sushwant Kumar Nigam, Ad hoc Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Officiating Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on regular basis w.e.f. 03.02.2010
12.	Smt. Harjinder Kaur, Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on ad hoc basis w.e.f. 04.02.2010 (A/N) and on regular basis w.e.f. 05.04.2010
13.	Smt. Renu Diwan, Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books	Officiating Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 05.04.2010 (A/N)
14.	Smt. Veena Kumari Khera, Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books	Officiating Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 05.04.2010 (A/N)
15.	Smt. Renuka Sundriyal, Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books	Officiating Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 06.04.2010 (F/N)
16.	Smt. Gargi Arora, Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on ad hoc basis w.e.f. 05.04.2010 (A/N)
17.	Shri Surander Kumar Saneja, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on ad hoc basis w.e.f. 05.04.2010 (A/N)
18.	Smt. Renuka Sadana, Saneja, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on ad hoc basis w.e.f. 05.04.2010 (A/N)

V. K. YADAV
Additional Registrar (Admn.-I)

The 27th April 2010

No. F. 20/2010-SCA(I)—I. Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to review the ad hoc promotion

against ad hoc/Short-term vacancies of Mrs. Gargi Arora and Shri Surander Kumar Saneja and promoted them as Branch Officers/Court Masters (Non-Shorthand) on regular basis w.e.f. 20.04.2010.

II. Hon'ble the Chief Justice of India has also been pleased to promote Shri Nand Ballabh Dhyani, Senior Court Assistant as Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on ad hoc basis against a purely short term temporary vacancy with effect from the forenoon of 21.4.2010 until further orders.

V. K. YADAV
Additional Registrar (Admn.-I)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 27th April 2010

No. DP/PERS. 1/2010/1234/3/15/2003—Services of Shri Vineet Agarwal, IPS (MH : 1994), DIG, CBI, have been placed at the disposal of Government of Maharashtra with effect from the afternoon of 02.04.2010 on repatriation, consequent upon completion of deputation tenure at Centre.

S. J. M. GILLANI
Dy. Director (Admn.)

No. DP/PERS. 1/2010/1235/53/3/2004—In terms of DP&T order No. 221/10/2003-AVD.II dated 13.02.2010 Shri K. Muralidhar, relinquished the charge of the post of Addl. Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 20.04.2010 on 'Removal from Service'.

S. J. M. GILLANI
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE)

New Delhi-110 003, the 21st April 2010

No. 11/10/2006-Adm.(FS)—The President is pleased to appoint Shri Bhanu Pratap Singh as Senior Scientific Officer Grade-II (Ballistics) in Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh under the Directorate of Forensic Science with effect from March 02, 2010 (Forenoon) in the PB-3 with Grade Pay of Rs. 5400/-.

C. N. BHATTACHARYYA
In-charge Director-cum-Chief Forensic Scientist

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 27th April 2010

No. P. III-2/2010-Min—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of Superannuation, Shri Om Prakash, (IRLA-6743) of Group Centre, CRPF, Jharoda Kalan, New Delhi, has relinquished charge of the post of Administrative Officer in the afternoon of 31/03/2010.

R. N. MISRA
DIG (Organisation)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 13th April 2010

No. 1/27/2009-Ad. III—The President is pleased to appoint Shri K. L. Tariang, IAS (AM : 98) an officer belonging to Assam-Meghalaya Cadre of the Indian Administrative Services as Director of Census Operations Meghalaya at his present level of Deputy Secretary on additional charge basis with effect from 19.02.2010 (FN) upto 31.03.2012 i.e. date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

2. The Headquarters of Shri K. L. Tariang will be at Meghalaya.

S. KANNAPPAN
Under Secy.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)
DELHI

New Delhi-110002, the April 2010

No. Admn. O.O. No. 3—Consequent upon his attaining the age of Superannuation Sh. Ram Parkash, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the afternoon of 31.05.2010.

His date of birth is 05.05.1950 and date of appointment in Govt. Service is 29.05.1972.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. O.O. No. 4—Consequent upon his attaining the age of Superannuation Sh. Keshav Chander Sharma, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the afternoon of 31.05.2010.

His date of birth is 19.05.1950 and date of appointment in Govt. Service is 16.08.1971.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 29th April 2010

No. WM-I/Q-73(G)/Vol-IV/837-839—Under the orders of the Pr. A.G. (A&E), W.B. the following Divisional Accounts Officer Grade-II hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay Rs. 4,800/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts Officer Grade-I in the present divisions till further order(s) will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Pankaj Kumar Debnath

The above named officer may submit his options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as D.A.O. I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (A/cs)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
LABOUR BUREAU

Shimla-171 004, the 30th April 2010

No. 5/1/2010-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 remained stationary at 170 (one hundred & seventy) for the month of March, 2010.

S. S. NEGI
Director

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400 085, the 20th April 2010

No. PD/7(27)/2009-R-IV/TO(C)/ETG/(Aug Case)/3591—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade 'C' in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2009, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1.	Shri Bambam Kumar Mishra	SA/C
2.	Shri Munauwer Ali	SA/D
3.	Shri Pankaj Kumar Sharma	SA/C
4.	Shri Awadh Kishore Singh	SA/C

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 20th April 2010

No. 6(2525)/2010-Adm/3733—Additional Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri G. Venkatesan, Assistant Personnel Officer, (Pay Band Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/-) Heavy Water Plant (Kota) by promotion to the post of Section Officer in the (Pay Band Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) in the Department of Atomic Energy Secretariat with effect from the forenoon of March 31, 2010.

V. GOVINDANKUTTY
Under Secy.

No. 6(2526)/2010-Adm/3734—Additional Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri Raju Pappu, Assistant Personnel Officer,

(Pay Band Rs. 9,300—34,800 plus Grade Pay of Rs. 4,200/-) BARC, Mumbai by promotion to the post of Section Officer in the (Pay Band Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay of Rs. 4,800/-) in the Department of Atomic Energy Secretariat with effect from the forenoon of April 1, 2010.

V. GOVINDANKUTTY

Under Secy.

The 22nd April 2010

CORRIGENDUM

No. 6(2523)/2010-Adm/3793—The designation of Shri P. V. Dhongadi, Senior Accounts Officer (Pay Band Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/-) Directorate of Construction, Services & Estate Management, Mumbai appointed by promotion to the post of Deputy Controller of Accounts in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Atomic Energy Secretariat with effect from the forenoon of February 25, 2010 notified vide this Departments Notification of even No. 2378 dated 08.03.2010, is amended to read as Officer-on-Special Duty (Budget).

V. GOVINDANKUTTY

Under Secy.

Mumbai-400 001, the 26th April 2010

No. 20/3(6)/2009-CCS/08—The President is pleased to appoint Shri P. C. Krishnakumar, Senior Private Secretary (PB-2 Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 5,400/-) of Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Private Secretary (PB-3 Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 6,600) in the same centre w.e.f. 5.4.2010 (FN) until further orders.

C. D. CHACKO

Officer-on-Special Duty

No. 26/3(5)/2009-CCS/09—The President is pleased to extend the deputation period of Col. Ajay Mohey, 1 GR, Ministry of Defence (Army), New Delhi as Director (Security & Co-ordination) (PB-4 Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay Rs. 8,900/-), in the Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this department w.e.f. 28.01.2010 upto 28.2.2010.

C. D. CHACKO

Officer-on-Special Duty

No. 26/2(3)/2006-CCS/10—The President is pleased to extend the deputation period of Col. Arunkumar Keshav Shinde, AAD, Ministry of Defence (Army), New Delhi as Chief Security Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 7,600/-), in the Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this department for a period of one year w.e.f. 22.10.2009.

C. D. CHACKO

Officer-on-Special Duty

No. 21/3(2)/2009-CCS/11—The President is pleased to appoint Shri N. Sreekumar, Senior Accounts Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 5,400/-), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Hyderabad of this Department as Deputy Controller of Accounts (PB-3 Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 6,600/-) in Heavy Water Plant, Manuguru w.e.f. 4.3.2010 (FN) until further orders.

C. D. CHACKO

Officer-on-Special Duty

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400 094, the 27th April 2010

No. DPS/07020/Rectt./1789—The President is pleased to appoint Shri G. Appa Rao, Assistant Stores Officer (Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay Rs. 5,400/-), Hyderabad Regional Stores Unit, Hyderabad, as Stores Officer in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay Rs. 6,600/-, in the Stores Unit, DPS, Manuguru, with effect from the forenoon of 16th April 2010, until further orders.

CATHERINE RAJ

Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 26th April 2010

No. NFC/ADMN/PEN/EC-3600/4043—On attaining the age of superannuation, Shri M. Venkatanarayana, Scientific Officer 'D' (Pay Band Rs. 15,600—39,100 plus Grade Pay Rs. 6,600/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.01.2010 (AN).

CH. JAGADESH

Asst. Personnel Officer

No. NFC/ADMN/PEN/EC-4352/4044—On attaining the age of superannuation, Shri J. V. Muralidhar Rao, Scientific Officer 'H' (Pay Band Rs. 37,400—67,000 plus Grade Pay Rs. 10,000/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.03.2010 (AN).

CH. JAGADESH

Asst. Personnel Officer

No. NFC/ADMN/PEN/EC-2994/4045—On attaining the age of superannuation, Shri N. Ramakrishnaiah, Scientific Officer 'E' (Pay Band Rs. 15,600—39,100 plus Grade Pay Rs. 7,600/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.03.2010 (AN).

CH. JAGADESH

Asstt. Personnel Office

Hyderabad-500 062, the 28th April 2010

No. NFC/PAR-I/03/58/268—Chief Executive, NFC appoints Shri K. V. Rama Sarma, Stenographer Gr. I to officiate as Private Secretary (NS) in temporary capacity in the pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/- w.e.f. 17.03.2010 (FN) until further orders.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

The 29th April 2010

No. NFC/PAR-I/03/01/404—The President is pleased to appoint Shri Abhinav Chaturvedi as Technical Officer/D in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in a temporary capacity with effect from the forenoon of 15.04.2010 until further orders.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603 102, the 21st April 2010

No. IGC/PF/10093/2010-R—The President is pleased to appoint Shri D. Ashokan in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Technical Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 21,000/- in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100+5,400/- (G.P.) with effect from the forenoon of 17.03.2010 in a temporary capacity until further orders.

V. DAYALAN
Chief Administrative Officer

The 22nd April 2010

No. IGC/PF/10098/2010-R—The President is pleased to appoint Smt. C. Parasakthi in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' on an initial pay of Rs. 25,350/- in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100+6,600/- (G.P.) with effect from the forenoon of 09.04.2010 in a temporary capacity until further orders.

V. DAYALAN
Chief Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL
AVIATION

New Delhi-110 003, the 28th April 2010

No. A-32013/3/2010-E.II.—The President is pleased to appoint the following Deputy Director of Operations in the Office of the Director General of Civil Aviation to the grade of Director of Operations with effect from the date mentioned against each in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay Rs. 8,700/- on ad-hoc basis, for a

period of one year or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

- (1) Shri Dinesh Chand Sharma w.e.f. 27.04.2010 (FN)
- (2) Shri Manoj Tulsiram Bokade w.e.f. 27.04.2010 (FN)

K. UNNIKRISHNAN
Deputy Director of Administration

The 3rd May 2010

No. A-19012/2/2010-E-II.—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language Office Order No. 5/5/2010-O.L.(Ser.) dated 11.03.2010, the President is pleased to appoint Dr. Madhu Shukla, Senior Hindi Translator, Department of Personnel and Training, New Delhi as Assistant Director (Official Language) on ad-hoc basis in the Directorate General of Civil Aviation in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 1st April, 2010 for a period of one year or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. UNNIKRISHNAN
Deputy Director of Administration

No. A-19012/1/2010-E-II.—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language Office Order No. 5/5/2010-O.L. (Ser.) dated 11.03.2010, the President is pleased to appoint Shri Saltoo Ram, Senior Hindi Translator, Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi as Assistant Director (Official Language) on ad-hoc basis in the Directorate General of Civil Aviation in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the afternoon of 25th March, 2010 for a period of one year or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. UNNIKRISHNAN
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaipur Waste Processing Company Private Limited

Jaipur, the 23rd April 2010

No. ROC/JPR/560/23442/3343—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Udaipur Waste Processing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nen Technologies Private Limited

Jaipur, the 23rd April 2010

No. ROC/JPR/560/28831/3347—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nen Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dr. N. K. Bansal Hospital & Medical Research
Private Limited

Jaipur, the 27th April 2010

No. ROC/JPR/560/19190/3366—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dr. N. K. Bansal Hospital & Medical Research Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marwar Automobiles Private Limited

Jaipur, the 27th April 2010

No. ROC/JPR/560/15770/3370—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marwar Automobiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Jaipur, the 4th May 2010

No. ROC/JPR/560/3/406—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Companies unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Com. Name
1	2	3
1.	011755	M/s. Patni Polytex Private Limited
2.	001762	M/s. Ess Dee Carpets Private Limited
3.	001763	M/s. Gama Leather Export Private Limited
4.	001767	M/s. Security Savings & Trading Company Private Limited
5.	001787	M/s. Indo Abraod Consultancy Services Private Limited
6.	001862	M/s. Puran Associates Private Limited
7.	011467	M/s. S. B. Projects Limited
8.	011467	M/s. Rajasthan Oil Industries Limited
9.	001873	M/s. Shree Kamal Nayan Rice & Allied Industries Private Limited
10.	001882	M/s. ECS Papers Limited
11.	011844	M/s. Urmila Gift & Fincap Private Limited
12.	011884	M/s. Rohil Conductors Private Limited
13.	011887	M/s. SJTK Marbles Private Limited
14.	011964	M/s. V. K. Confectioners Private Limited
15.	011687	M/s. Manish Securities Private Limited
16.	011989	M/s. Rachna Towers Private Limited
17.	011879	M/s. Kreetika Transformers Private Limited
18.	011797	M/s. Karan Marbles Private Limited
19.	011586	M/s. Kushal's Incomp Private Limited
20.	001757	M/s. Stemco Enterprises Private Limited
21.	001785	M/s. ACE Elements Private Limited
22.	001833	M/s. Rathi Gum Industries Private Limited
23.	001844	M/s. Jodhpur Cables & Conductors Private Limited
24.	001798	M/s. Jaipur Wire Industries Private Limited
25.	001793	M/s. Metal & Alloys (India) Private Limited
26.	001773	M/s. Jaipur Cables & Industries Private Limited
27.	001771	M/s. Krishna Pulses & Oil Industries Private Limited
28.	011553	M/s. AVS Impo Expo Private Limited
29.	011563	M/s. Ghahjed Granites Private Limited
30.	011780	M/s. Dastgir Oxyzens Private Limited
31.	011415	M/s. Andes Drugs Private Limited
32.	011385	M/s. Honewala Mineral Private Limited
33.	011590	M/s. Dr. Talwar's Maternity & Cardiac Research Centre Private Limited
34.	011640	M/s. D. Nix Mineral Waters Private Limited
35.	011669	M/s. Ganwal Holding Private Limited

1	2	3
36.	011852	M/s. Amar Jeevan Marketing Private Limited
37.	011643	M/s. Sreyas Talc & Clays Private Limited
38.	007517	M/s. Vikas Nirman Limited
39.	008631	M/s. A. K. C. L. Exports Limited
40.	008554	M/s. Kalparchit Constructions Limited
41.	008510	M/s. Hero Technology Limited
42.	008366	M/s. S. B. Holding Limited
43.	009245	M/s. BJM International Limited
44.	008348	M/s. Rishabh Housing Development Finance Limited
45.	011419	M/s. Sunrise Cool Air Private Limited
46.	011729	M/s. Ranka Land Development Finance Private Limited
47.	011768	M/s. Suhalka Investments Private Limited
48.	011802	M/s. Zodina Steels Private Limited
49.	011857	M/s. Shri Bindayaka Finance & Trading Company Private Limited
50.	011966	M/s. Vertex Marbles Private Limited
51.	011991	M/s. Uni Plus Marbles Private Limited
52.	011118	M/s. Jaipur Auto Finance Private Limited
53.	005502	M/s. Regina Oil Processors Private Limited
54.	011274	M/s. Shree Bhawani Sales Private Limited
55.	001769	M/s. Hotel Ajaymeru Private Limited
56.	011524	M/s. Excellent Irrigation Private Limited
57.	011499	M/s. Aravli Camfil Private Limited
58.	011761	M/s. Ambica Creations Private Limited
59.	011838	M/s. J. R. G. Steels Private Limited
60.	011858	M/s. Banarasi Leasing & Finance Private Limited
61.	011382	M/s. Gayatri Perfumery Works Private Limited
62.	011592	M/s. N. N. Steel Rolling Mills Private Limited
63.	009618	M/s. Kundan Marbles Private Limited
64.	011661	M/s. Shree Riddhi Siddhi Granimarmo Private Limited
65.	011143	M/s. Kalindee Granites & Minerals Limited
66.	011632	M/s. Radha Govind Welinvest Private Limited
67.	011491	M/s. Jagdamba Irrigation Private Limited
68.	011528	M/s. Praj Infin Private Limited
69.	005646	M/s. Kota Finance & Investment Private Limited
70.	011253	M/s. Mahesh Malt Private Limited

1	2	3
71.	011120	M/s. Shrenik Granites Private Limited
72.	011128	M/s. Transmission Engineers Private Limited
73.	011259	M/s. Saharia Marbles & Minerals Private Limited
74.	011281	M/s. Yashoda Marbles Private Limited
75.	011067	M/s. Rawat Finlease Private Limited
76.	011671	M/s. Samachar Jagat Private Limited
77.	011430	M/s. Shyam Earth Movers Private Limited
78.	008326	M/s. Madhya Pradesh Vitta Avam Vinnyog Limited
79.	011288	M/s. Bisalpur Finance & Leasing Limited
80.	009981	M/s. Vijan Finvest Limited
81.	009754	M/s. Crystal Finvest Limited
82.	009647	M/s. Sogani Images (India) Limited
83.	009626	M/s. CRS Palace Hotels Limited
84.	009614	M/s. Nimbaraka Holding & Finance Limited
85.	011146	M/s. Alora Cement Company Private Limited
86.	011073	M/s. Akhil Cements Private Limited
87.	001904	M/s. Electric Controls & Switch Boards Private Limited
88.	011459	M/s. Food Land Jaipur Private Limited
89.	011424	M/s. Bathla Infin Private Limited
90.	011932	M/s. Active Marble & Granites Private Limited
91.	011829	M/s. Kumar Finvest Private Limited
92.	011684	M/s. Lok Nath Engineers Private Limited
93.	001937	M/s. Fancy Stones (India) Limited
94.	001890	M/s. Hindustan Synthetics Limited
95.	008051	M/s. T P D Finance Limited
96.	007982	M/s. Galaxy Club Card Limited
97.	009312	M/s. Derby Leasing & Financial Services Limited
98.	008833	M/s. First Rise Finance & Investment Limited
99.	008513	M/s. Aditya Finlease Limited
100.	008589	M/s. North-East Chitty Limited
101.	008641	M/s. Lohia Steels & Forge Limited
102.	011789	M/s. Suryodya Credit Company Limited
103.	011550	M/s. Satyavijay Leasing & Finance Company Limited
104.	008905	M/s. Ganpati Cotspin Limited
105.	009431	M/s. Jain Monumental Recreation Resorts Limited

1	2	3	1	2	3
106.	005505	M/s. Radha Krishna Stones Private Limited	140.	020890	M/s. Ridhi-Sidhi Polypacks Private Limited
107.	002000	M/s. Sita Metals Private Limited	141.	013840	M/s. Sulzem Synthetics Private Limited
108.	001992	M/s. Udaipur Chemicals and Fertilizers Private Limited	142.	021245	M/s. Haritwal Buildcon Private Limited
109.	001976	M/s. Jaggi Alloys (India) Private Limited	143.	006161	M/s. Bandna Coal Briquets Private Limited
110.	001912	M/s. Plexus Private Limited	144.	021046	M/s. Roopal Build Home Private Limited
111.	001903	M/s. Rex Zip Fastners Private Limited	145.	013868	M/s. Sonali Creation Private Limited
112.	001895	M/s. Indian Look (Textiles) Private Limited	146.	007443	M/s. Madhu Re-Rolling Mills Private Limited
113.	001899	M/s. Jagetia Paper Mills Private Limited	147.	010448	M/s. Jewel Mart Limited
114.	001913	M/s. Sunflower Clothing Private Limited	148.	022455	M/s. Tijaria Build Estate Private Limited
115.	001922	M/s. Aluda Ceramics Private Limited	149.	022518	M/s. Jaichanda Coloniesers Private Limited
116.	001926	M/s. H. K. Jakhar Private Limited	150.	023362	M/s. Pashan Realty Private Limited
117.	001936	M/s. Naptune Laboratories Private Limited	151.	025412	M/s. ASI Energy Limited
118.	001946	M/s. Barmer Wooltex Mills Limited	152.	020467	M/s. Gajraj Export Private Limited
119.	001942	M/s. Advance Paper Mills Limited	153.	003508	M/s. Modern Swadeshi Tyres (India) Private Limited
120.	020760	M/s. Associated Natural Sandstone Private Limited	154.	010813	M/s. Suncity Steels Private Limited
121.	020761	M/s. Stone Mining (India) Private Limited	155.	010571	M/s. Sarthak Impex Private Limited
122.	020762	M/s. Rajasthan Natural Sandstone Private Limited	156.	010394	M/s. P D K Securities Private Limited
123.	021533	M/s. Shrinath Agrochem Private Limited	157.	003283	M/s. Pathak Steels Private Limited
124.	020557	M/s. Rajasthan Buildstate Private Limited	158.	001845	M/s. Nidhi Marbles Private Limited
125.	020687	M/s. Shika Consultancy Services Private Limited	159.	009653	M/s. Oswal Marmo Private Limited
126.	021736	M/s. Rudravtar Real Estate Private Limited	160.	017256	M/s. Heritagecity Tradelink Services Private Limited
127.	021670	M/s. Chanda Commodities Trading Private Limited	161.	000814	M/s. Karauli Stone Marketing Co. Private Limited
128.	021692	M/s. Gamma Mineral & Clay Combine Private Limited	162.	013834	M/s. Indora Castings Private Limited
129.	021704	M/s. Swabhikash Man Power Private Limited	163.	006178	M/s. Shanta Builders Private Limited
130.	021713	M/s. Jaipur Marine Officers Training Private Limited	164.	010028	M/s. Suprint Tradings Private Limited
131.	021719	M/s. Vyas Trade Link Private Limited	165.	015576	M/s. Goldstar Textiles Private Limited
132.	001274	M/s. Agarwal Financial Advisors Private Limited	166.	021316	M/s. Borad Jewels Private Limited
133.	011244	M/s. Shree Samarth Carriers Private Limited			
134.	011081	M/s. Sukan Securities Private Limited			
135.	005878	M/s. Shri Ganpati Wood Crafts Private Limited			
136.	021526	M/s. Pooja Buildhome Private Limited			
137.	020129	M/s. Kshatriya Agencies Private Limited			
138.	020986	M/s. Shyampuraya Buildcon Private Limited			
139.	020990	M/s. Shreemangalam Electrodevices Private Limited			

S. P. KUMAR

Registrar of Companies
RajasthanIn the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies:—

Patna, the 23rd April 2010

No. ROC/PAT/560(3)/Suo Moto/342—Notice is hereby
given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that at the expiration of three months
from the date hereof the name of the following Companies

unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Com. Name
1	2	3
1.	000118	M/s. Sahabad Cottage Industries Limited
2.	000264	M/s. R. P. Sinha Cement Limited
3.	000407	M/s. Chandragupta Prakashan Limited
4.	000474	M/s. Sahana Coal Company Private Limited
5.	000514	M/s. Bihar Iron Distributors Limited
6.	000577	M/s. Uttam Krish Udyog Limited
7.	000709	M/s. Sanjay Prakashan Limited
8.	000746	M/s. Dowia Cold Storage Limited
9.	000757	M/s. EMSU Breweries & Processed Foods Limited
10.	000759	M/s. Shri Jawahar Cold Storage Limited
11.	000763	M/s. Bokaro Dairy Products Limited
12.	000764	M/s. Atlas Iron and Alloys Limited
13.	000780	M/s. Jameshedpur Asbestos Manufacturing Company Limited
14.	000799	M/s. The Swarnkar Aluminium Nirmanshala Limited
15.	000814	M/s. Singhbhum Flour Mills Limited
16.	000822	M/s. Azimabad Publications Limited
17.	000861	M/s. Prominent Contractors & Engineering Limited
18.	000888	M/s. Taneja Minerals Limited
19.	000937	M/s. Tirhut Fruits & Agro Industries Limited
20.	000949	M/s. Ritu Hotels Limited
21.	001141	M/s. Brew Well (India) Limited
22.	001157	M/s. Basicchem (India) Limited
23.	001188	M/s. Nalanda Breweries Limited
24.	001190	M/s. Bihar Formaldehyde Limited
25.	001308	M/s. Niranjana Textiles Limited
26.	001309	M/s. Nalanda Cold Storage & Agro Industries Limited
27.	001325	M/s. Auto Links Limited
28.	001338	M/s. Patliputra Press & Publications Limited
29.	001271	M/s. Bokaro Coaltar Limited
30.	001272	M/s. Mumtaz Chemicals Limited
31.	001352	M/s. Calben (India) Limited
32.	001457	M/s. Ranchi Textile Processors Limited
33.	001652	M/s. Sudsons Exports Limited

1	2	3
34.	008092	M/s. Meek Housing Limited
35.	008034	M/s. Anjana Entertainment Private Limited
36.	008254	M/s. Subidha Agro Medicinal and Aromatic Limited
37.	008314	M/s. Blue Diamond Courier Limited
38.	008316	M/s. Ramganga Valley Chemicals & Fertilisers Limited
39.	008319	M/s. Almonarch Estates (India) Limited
40.	008343	M/s. Vipalav Fishing Company Limited
41.	008346	M/s. Silvy Agro Construction Company Limited
42.	008351	M/s. Ayenir Marketing Services Limited
43.	008371	M/s. Kshetriya Tourism Development Limited
44.	008450	M/s. Patsons Infracon Limited
45.	008470	M/s. Patliputra International Medical Centre Limited
46.	008515	M/s. Opal Links Limited
47.	008600	M/s. Sun Polypipes Limited
48.	008660	M/s. Krypton Infotech Limited
49.	008682	M/s. Dhuliya Constructions and Properties Limited
50.	008822	M/s. Patliputra Hotels (India) Limited
51.	008877	M/s. Sarvottam Coal & Chemicals Limited
52.	008910	M/s. Gangotri Concast Limited
53.	008917	M/s. Mohammadpur Cold Storage Limited
54.	008933	M/s. Hirdaya Basant Sons Mines and Minerals Limited
55.	009359	M/s. Bihar Computer Software & Diagnostics Limited
56.	009403	M/s. Hahnemann Arogya Limited
57.	009413	M/s. Zee Health Care Limited
58.	009437	M/s. Jai Maadurga Construction Limited
59.	009439	M/s. Dilip Educational Services Limited
60.	009474	M/s. Straginet Human Resources Consultancy Limited
61.	009720	M/s. Shivam Substance India Limited
62.	009735	M/s. Tiwari & Choube Enterprises Limited
63.	009903	M/s. Prominent Cards Limited
64.	009944	M/s. Sai Ferrous Limited
65.	010008	M/s. Anusheel Shyam Yashwini Exhibitors Limited
66.	010075	M/s. Ayurvedshri Herbals Limited

1	2	3
67.	010081	M/s. Hanswahini Properties & Consultancy Limited
68.	010133	M/s. Divine Life Concept Network Marketing Company Limited
69.	010245	M/s. Loft Management Limited
70.	010251	M/s. Ambition Marketing India Limited
71.	010257	M/s. Zee Concept Marketing Limited
72.	010389	M/s. Bombay Safe & Steel Works Limited
73.	010570	M/s. Vananchal Prince Marketing Limited
74.	010597	M/s. Aman Infoway Limited
75.	010614	M/s. Nice Altruism Distribution India Limited
76.	010758	M/s. Gulmohar Polyplast Limited
77.	010771	M/s. Paras Concept (India) Limited
78.	010794	M/s. Homeland Investigative Services Limited
79.	010921	M/s. Sanchar Infoways Limited
80.	011037	M/s. Radiant Swasth India Limited
81.	012082	M/s. Jharkhand Electrans India Limited
82.	011174	M/s. Legion Marketing India Limited
83.	012150	M/s. Blue Montana Resort Limited

K. S. PRADHAN
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shah Consultancy Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00004/3102—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Shah Consultancy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vaghani Dental Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00794/3105—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Vaghani Dental Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rushi Finance Private Limited
Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00225/3108—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Rushi Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shubh Laxmi Marketing Private Limited
Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00818/3111—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Shubh Laxmi Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepanjali Organisers Private Limited
Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00797/3114—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Deepanjali Organisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Energy Construction and Advisory Private Limited
Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00800/3117—Notice is hereby given pursuant to Sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Green Energy Construction and Advisory Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Apex Adhesive Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00806/3120—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Apex Adhesive Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fluidsys Engineers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00809/3123—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Fluidsys Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajdev Chemical Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00812/3126—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Rajdev Chemical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Allways Techfin Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00803/3132—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Allways Techfin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ahmedabad International Diamond Bourse Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00815/3135—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Ahmedabad International Diamond Bourse Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhuraj Polyfiles Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. 121/3138—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Madhuraj Polyfiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deekeens Medicare Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. 120/3141—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Deekeens Medicare Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havell

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swaminarayan Texturisers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. 119/3144—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Swaminarayan Texturisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Coal Care Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. 61/3147—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Coal Care Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Susabh Fibres Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. 117/3150—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Susabh Fibres Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deekeens Sizars Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. 117/3153—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Deekeens Sizars Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havell

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Siddhi Projects Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010 00821/3169—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Siddhi Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Have

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lexis Infotech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010 00011/3157—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lexis Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJAR
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Have

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. YUJ Consultants Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010 00729/3160—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. YUJ Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJAR
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Have

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jeff Shipping Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00774/3163—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jeff Shipping Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fast Track Sales and Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 30th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00781/3166—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fast Track Sales and Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lanjigarh Scheduled Area Development
Foundations Private Limited

Cuttack-753001, the 26th April 2010

No. RoC/sec 560/536—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lanjigarh Scheduled Area Development Foundations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Muthu Palaye Steel Mills Limited

Chennai-600034, the 26th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00266—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of

three months from the date hereof the name of M/s. Muthu Palaye Steel Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rattha Wellness Private Limited

Chennai-600034, the 13th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00277—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rattha Wellness Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Champsoft Private Limited

Chennai-600034, the 16th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00108—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Champsoft Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Porur Properties Private Limited

Chennai-600034, the 26th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00285—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Porur Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arcot Kamalam Chits Private Limited

Chennai-600034, the 26th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00259—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arcot Kamalam Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Valiant Sansbound Solutions Private Limited

Chennai-600034, the 26th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00292—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Valiant Sansbound Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Transera Electronics Private Limited

Chennai-600034, the 26th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00271—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Transera Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. R. Travel Limited

Chennai-600034, the 27th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00101—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. R. Travel Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madras Auto Couplings Private Limited

Chennai-600034, the 27th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00088—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madras Auto Couplings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. V. M. Technologies Private Limited

Chennai-600034, the 27th April 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00111—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V. M. Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands